

TENDER DOCUMENT FOR E AUCTION

Whereas Phoenix ARC Private Limited (“**Phoenix**”) acting through its Authorised Officer, in exercise of its powers under The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI ACT, 2002) has decided to sell through **e-Auction** the secured asset mentioned in **ANNEXURE - I** for realization of the secured debts due to Phoenix amounting to Rs. 2,08,71,174/- (Rupees Two Crore Eight Lakhs Seventy-One Thousand One Hundred and Seventy-Four Only) as on 17.06.2019 together with further interest and other cost and charges and expenses as mentioned in the Demand Notice dated 02.07.2019 with future interest, penal interest, incidental expenses, cost and charges etc. **issued under section 13(2) of the SARFAESI Act, 2002** due and payable by the borrower i.e., M/s Loom & Craft and the Guarantors under SARFAESI Act, 2002. The sale shall be subject to the conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 and to the following further conditions:

Auctioneer Name	Phoenix ARC Private Limited Trustee of Phoenix Trust-FY 22-21 Wallace Towers, 3 rd Floor, 139/140/B/1, Crossing of Shar Road and Western Express Highway, Ville Parle (E), Mumbai – 400057, Tel : 022- 68492450, Fax : 022- 67412313, CIN: U67190MH2007PTC168303; Email : info@phoenixarc.co.in ; Website: www.phoenixarc.co.in
Auction held with the aid by	M/s. C1 India Pvt. Ltd., (“Service Provider”) Gulf Petro Chem, Building No. 301, 1 st Floor, Udyog Vihar Phase-2, Gurgaon(Haryana)- 122015 Help Line No: 0124-4302020/21/22/23/24 Help Line e-mail ID: support@bankeauctions.com
Auction Schedule	Date of Auction: - As per Sale Notice (Mentioned in Annexure – I) Timings: - As per Sale Notice (Mentioned in Annexure – I) Auction Website: - https://www.bankeauctions.com
Annexure	<ol style="list-style-type: none">1) Terms & conditions of e-Auction2) Soft Copy of Auction Notice published in newspapers (Annexure – I)3) Details of Bidder (Annexure – II)4) Declaration by Bidder (Annexure – III)5) KYC documents to be submitted as per the Annexure-(IV)6) Confirmation by Bidder Regarding Receipt of Training (Annexure – V)

	7) Price Confirmation Letter by H1 Bidder (Annexure – VI)
Special Instructions	<u>Bidding in the last minutes and seconds should be avoided in the bidders own interest. Neither the Service Provider nor Phoenix will be responsible for any lapses / failure on the part of the bidder, in such cases.</u>

E-Auction bidding Terms and Conditions

1. Computerized e-Auction shall be conducted by Service Provider on behalf of Phoenix, on pre-specified date, while the bidders shall be quoting from their own offices / place of their choice. Internet connectivity and other paraphernalia requirements shall have to be ensured by bidders themselves. Please note that failure of Internet connectivity (due to any reason whatsoever it may be) shall be the sole responsibility of bidders and neither Phoenix nor the Service Provider shall be responsible for these unforeseen circumstances. *In order to ward-off such contingent situation, bidders are requested to make all the necessary arrangements / alternatives whatever required so that they are able to circumvent such situation and still be able to participate in the e-Auction successfully. However, the bidders are requested not to wait till the last moment to quote their bids to avoid any such complex situations.*
2. The Service Provider shall arrange to train the bidder(s), without any cost. The Service Provider shall acquaint bidder regarding the bidding process, functions and e-Auction rules. All the bidders required to ensure that compliance regarding receipt of training before start of bid process.
3. **Material for Bid:** Sale of secured assets by Phoenix under SARFAESI Act, 2002.
4. **Type of Auction:** E-Auction.
5. **Bidding Currency & Unit of Measurement:** Bidding will be conducted in Indian Rupees (INR) Only.
6. **Starting (Opening) Price / Bid Increment:** The opening price of the auction and the bid Increment value shall be as per Sale Notice and available to the bidders on their bidding screen.
7. **Bid Price:** The bidder has to quote the total price for each of the item.
8. **For other terms and conditions, please see the e-auction notice published by Phoenix**
Procedure of e-Auctioning
 - i. **e-Form Submission**
All interested bidders need to fill online form available on e-Auction domain with necessary details.
 - ii. **Online e-Auction:**
 - Phoenix will declare its **Opening Price (OP)**, which shall be visible to all bidders during the start of the e-Auction. Please

note that the Reserve price of an item in online e-Auction is open to all the participating bidders. Any bidder can start bidding, in the online e-Auction, from the above Reserve price. Hence, the first online bid that comes in the system during the online e-Auction shall be above the auction's Reserve price, by one increment and in multiples of increment specified in the sale notice. The second online bid and onwards will have to be higher than the H1 rate by one increment value, or higher than the H1 rate by multiples of the increment value. In case of a sole bidder, the said bidder has to mandatorily increase one bid over and above the reserve price in compliance with Rule 9(2) of SARFAESI Act, 2002.

- The **“Bid Increase Amount”** has been fixed in respect of the secured assets which the bidders can view on their bidding screen and the bidders will have to increase the bid amount in the multiple of **“Bid Increase Amount”**.
 - Online Auction shall be open for **1 hour**. If a bidder places a bid in the last 5 minutes of closing of the e-Auction and if that bid gets accepted, then the auction’s duration shall automatically get extended for another 5 minutes, from the time that bid comes in. Please note that the auto-extension shall be **Unlimited** and will take place only if a valid bid comes in last 5 minutes of closing. If valid bid is not received, the auto-extension will not take place even if that bid might have come in the last 5 minutes. In case, there is no bid in the last 5 minutes of closing of e-Auction, the auction shall get closed automatically without any extension. *However, bidders are advised not to wait till the last minute or last few seconds to enter their bid during the auto-extension period to avoid complications related with internet connectivity, network problems, system crash down, power failure, etc.*
9. Successful Bidder shall be required to submit the final prices quoted during the e-Auction as per Annexure after the completion of e-Auction, duly signed and stamped as token of acceptance without any new condition other than those already agreed to before start of auction. During e-Auction, if no bid is received within the specified time, Phoenix at its discretion may decide to revise Opening price / scrap the e-Auction process / proceed with conventional mode of tendering.
 10. The bid once submitted, cannot be cancelled / withdrawn and the bidder shall be bound to buy the secured asset(s) at the final bid price. **The failure on part of bidder to comply with any of the terms and conditions of the e-auction notice and Tender Document will result in forfeiture of the amount paid by the defaulting bidder.**
 11. The bidders will be able to view the following on their screen along with the necessary fields in the E Auction:
 - a. Leading Bid in the Auction (H1 – Highest Rate)
 - b. Bid placed by bidder
 - c. Opening Price & Minimum Increment Value.
 - d. The bid rank of bidder in the auction.
 12. The decision regarding declaration of successful bidder shall be finalized by the Authorised Officer of Phoenix.

13. At any stage of the auction, the Authorised Officer may accept/reject/modify/cancel the bid/offer or post-pone the auction without assigning any reason thereof and without any prior notice.
14. Phoenix / Service Provider shall not have any liability towards bidders for any interruption or delay in access to the site irrespective of the cause.
15. The bidders are required to submit acceptance of the terms & conditions and modality of e-Auction given above before participating in the E-Auction.
16. **Successful bidder:** At the end of the E-Auction, the Authorised Officer of Phoenix will evaluate all the bids submitted and thereafter declare the highest bidder in the auction sale. The decision of the Authorised Officer shall be final & binding on all the bidders.

Terms & Conditions for Sale of Secured Assets

- i) The E-Auction is being held on “**AS IS WHERE IS, AS IS WHATEVER THERE IS AND WITHOUT RECOURSE BASIS**” condition.
- ii) The intending bidders should make their own independent enquiries regarding the encumbrances, title of property/ies put on auction and claims/rights/dues affecting the secured assets, including the statutory dues, etc. prior to submitting their bid. The auction advertisement does not constitute and will not be deemed to constitute any commitment or any representation of Phoenix. The secured assets are being sold with all the existing and future encumbrances whether known or unknown to Phoenix. The Authorised Officer of Phoenix shall not be responsible in any way for any third-party claims/rights/dues.
- iii) It shall be the responsibility of the bidders to inspect and satisfy themselves about the secured assets and specification before submitting the bid.
- iv) The particulars specified in the auction notice published in the newspapers and annexed herein below as **ANNEXURE I**, have been stated to the best of the information of the undersigned; however, undersigned shall not be responsible / liable for any error, misstatement or omission.
- v) The inspection of secured asset put on auction will be permitted to interested bidders at sites on the day and time mentioned in the public notice annexed as **ANNEXURE-I**.
The inspection of secured asset put on auction will be permitted to interested bidders at sites on the day and time mentioned in the public notice annexed as **ANNEXURE-I**.
The EMD shall be payable through RTGS/NEFT in the **Current Account: 5846242904; Kotak Mahindra Bank Limited, Branch: Kalina, Mumbai, IFSC Code: KKBK0000631; Name of the A/C.: “PHOENIX TRUST FY 22-21”**,
***Please note that the Cheques / Demand Draft shall not be accepted as EMD amount.** The intending bidders/purchasers are required to register their name at “<https://www.bankeauctions.com>” and get user ID and Password free of cost and get training on e-Auction from the Service Provider, by contacting on **M/s C 1 India Private Limited, Contact Number: +91-124-4302020/2021/2022/2023/2024, +91-22-66865600, +91-7738866326, +91-9594597555/07291981124/25/26, email id: support@bankeauctions.com**. After deposit of EMD as mentioned in para (vi) above, the intending purchaser/ bidder is required to **get the copies of following documents uploaded** in the website **before last date of submission of the bid(s)** (as mentioned in the public auction notice published in the newspapers and copy of which is attached below as **ANNEXURE-I**) (**Kindly take note that minimum offer amount cannot be less than the reserve price mentioned in the public auction**

notice published in the newspapers and copy of which is attached below as ANNEXURE-I below.)

1. Copy of the RTGS challan;
 2. Copy of Demand Draft
 3. Copy of PAN Card
 4. Board Resolution
 5. Proof of identification (KYC) viz. attested copy of Voter ID Card/ Driving License/ Passport etc.
 6. Copy of proof of address, without which the bid is liable to be rejected.
- vi) The E-Auction will take place through web portal “<https://www.bankeauctions.com>” on the time specified in the E- Auction notice published in the newspaper and annexed herewith as **ANNEXURE-I**.
- vii) The bid/s shall be accompanied by an Earnest Money Deposit (EMD) equal to 10 % of the Reserve Price, by NEFT / RTGS. **The secured assets shall not be sold at and/or below the reserve price.**
- viii) The conditional bids may be treated as invalid. **Please note that after submission of the bid/s, no correspondence regarding any change in the bid shall be entertained.**
- ix) If the dues of Phoenix together with all costs, charges and expenses incurred by it or part thereof as may be acceptable to Phoenix are tendered by or on behalf of the borrower or guarantor/s at any time on or before the date fixed for sale, the sale of assets may be cancelled.
- x) The auction is by way of inter-se bidding amongst the bidders and the bidders shall increase the bid amount for each item(property) in the multiple of amount mentioned in **ANNEXURE-I** against the secured assets under column “**Bid Increment Amount**”. The inter-se bidding amongst the bidders shall commence online exactly on the date & time specified in the public notice annexed as **ANNEXURE-I**.
- xi) The EMD of unsuccessful bidders will be refunded to their respective A/c No. shared in e-Auction Portal (<https://www.bankeauctions.com>) online within 72 hours of the working days from the auction. The bidders will not be entitled to claim any interest, costs, expenses and any other charges (if any).
- xii) The Authorised Officer of Phoenix is not bound to accept the highest offer and the Authorised Officer of Phoenix has absolute right to accept or reject any or all offer(s) or adjourn/postpone/cancel the auction, at any stage of auction, without assigning any reason thereof.
- xiii) The successful bidder shall deposit 25 % (inclusive of EMD) of its/his offer by way of RTGS / NEFT to the account mentioned in public notice annexed as ANNEXURE – I, on the date of auction mentioned in the Sale Notice or not later than next working day before closing of banking hours, which deposit will be confirmed by Phoenix, failing which the sale would be deemed to have failed, and the EMD of the said successful bidder shall be forfeited. The balance amount of the purchase consideration is payable on or before 15th day from the date of confirmation of the sale of the secured asset or such extended period as may be agreed upon in writing by the Authorised Officer at his/her discretion. In case of failure to deposit the balance amount within prescribed period, the amount deposited by the defaulting bidder shall be forfeited and the defaulting bidder shall neither have claim on the secured asset nor on any part of the sum for which may it be subsequently sold.
- xiv) The successful purchaser/bidder shall bear any statutory dues, taxes, fees payable, stamp duty, registration fees, etc. that is required to be paid in order to get the property conveyed/delivered in his/her/its favour as per the applicable law.

- xv) The payment of all statutory/non statutory dues, taxes, rates, assessments, charges, fees etc. owing to anybody shall be the sole responsibility of successful purchaser/bidder only.
- xvi) The successful purchaser/bidder shall be solely responsible for any cost / expenses /fees / charges / transfer charges etc. payable to society or any other authority towards the transfer of the rights in its / his / her favour.
- xvii) In case of any dispute arises as to the validity of the bid(s), amount of bid, EMD or as to the eligibility of the bidder, authority of the person representing the bidder, the interpretation and decision of the Authorised Officer shall be final. In such an eventuality, Authorised Officer of Phoenix shall in its sole discretion be entitled to call off the sale and put the secured assets to sale once again on any date and at such time.
- xviii) The sale certificate shall be issued on the receipt of entire sale consideration. Sale Certificate shall be issued by Authorised Officer of Phoenix in the name of the successful bidder and/or his/her/its nominee only. Addition/deletion of name of any persons / institution shall not be possible. Compliance of all formalities and payment of the required fees as desired by the Government for transfer/delivery of the secured asset/s sold will be completely borne by the successful Bidder.

Other Terms & Conditions for Sale of Secured Asset

- The bidder shall not involve himself or any of his representatives in price manipulation of any kind directly or indirectly by communicating with other bidders.
- The bidder shall not divulge either his bid or any other exclusive details of Phoenix or to any other party.
- The Service Provider / Phoenix shall not have any liability to the bidders for any interruption or delay in access to the site irrespective of the cause.
- The Service Provider / Phoenix are not responsible for any damages, including damages that result from, but are not limited to negligence. The Service Provider will not be held responsible for consequential damages, including but not limited to systems problems, inability to use the system, loss of electronic information etc.

Sd/-
Authorised Officer
Phoenix ARC Private Limited
PHOENIX TRUST FY 22-21

N.B.: Bidder(s) will have to go through the ANNEXURES uploaded on the Web Portal (<https://www.bankeauctions.com>)

and follow the following procedures:

- **Annexure – II:** All the Prospective Bidder(s) will have to –
 - get the printout
 - fill it up and sign
 - upload the scanned copy while submitting the bid
- **Annexure –III:** All the Prospective Bidder(s) will have to -
 - get the printout
 - fill it up and sign
 - upload the scanned copy while submitting the bid
- **Annexure – V:** Just after receiving Training on e-Auction, Bidder(s) will have to –
 - get the printout
 - fill it up and sign
 - e-mail the scanned copy to the Authorised Officer (e-mail ID mentioned in Sale Notice) with a copy to support@bankeauctions.com
- **Annexure – VI:** Just after the completion of e-Bidding Process, the H1 Bidder will have to –
 - get the printout
 - fill it up and sign
 - e-mail the scanned copy to the Authorised Officer (e-mail ID mentioned in the Sale Notice) with a copy to support@bankeauctions.com

ONLINE E – AUCTION SALE OF ASSETS



Phoenix ARC Private Limited

Reg Office : Wallace Towers, 3rd Floor, 139/140/B/1, Crossing of Shar Road and Western Express Highway, Ville Parle (E), Mumbai – 400057, Tel : 022- 68492450, Fax : 022- 67412313, CIN: U67190MH2007PTC168303; Email : info@phoenixarc.co.in; Website: www.phoenixarc.co.in

In exercise of the powers under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act) read with Rules 8 & 9 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (RULES) and pursuant to the possession of the secured asset of the borrower/guarantors/mortgagors mentioned hereunder vested with the Authorised Officer under the said SARFAESI Act and RULES for recovery of the secured debts, the Authorised Officer has decided to sell the secured assets by auction sale.

Notice is hereby given to the public in general and to the borrower/guarantors/mortgagors in particular, that the under mentioned properties mortgaged to Phoenix ARC Private Limited acting in capacity as Trustee of the respective trusts mentioned below (Phoenix) (pursuant to assignment of debt by various Banks mentioned below (Assignor Banks) in favour of Phoenix vide the respective Assignment Agreements more particularly mentioned below) will be sold on “**AS IS WHERE IS, AS IS WHATEVER THERE IS AND WITHOUT RECOURSE BASIS” condition**, by way of “**online e-auction**” for recovery of dues and further interest, charges and costs etc. as detailed below **in terms of the provisions of SARFAESI Act read with Rules 8 & 9 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)** through website <https://www.bankeauctions.com> as per the details given below:

Name of Borrower	M/s. Loom and Craft [Represented through its Proprietor Mr. Mohd. Rauf] (Borrower) 350/59A, FCI Road, Dariyapur, Nandan Khera, Lucknow, Uttar Pradesh-226017.
Name of Co-Obligant/Guarantors /Mortgagors/ Partners	Mr. Mohd. Rauf Mrs. Saba Rauf Mr. Mohd. Maroof Mrs. Fouzia Khatoon
Details of Assignment	Assignor – Hero Fincorp Limited; Trust - Phoenix Trust FY 22-21; Date of Assignment – 30.12.2021

Amount due as per SARFAESI Notice dated Rs. 2,08,71,174/- (Rupees Two Crore Eight Lakhs Seventy-One Thousand One Hundred and Seventy-Four Only) as on 17.06.2019 together with further interest and other cost and charges and expenses as mentioned in the Demand Notice dated 02.07.2019

Description of Immovable Properties:

House No. 350/59A,* situated at Nanda kheda, Ward: Labour colony, Lucknow- 226017

Boundaries :

East-: remaining part of building no. 350/59A,

West-: property of Ratan Maheshari,(building)

North-: 20-foot-wide road,

South-: House Ratan Maheshwari

*Admeasuring 2,500.208 Sq. feet (sale deed 3909/04 admeasuring 1404.75 Sq.ft and 3910/04 admeasuring 1095.458 Sq.ft)

Possession details	Phoenix ARC has taken Physical possession of the above-named property as per provisions of SARFAESI Act, 2002 on 18-12-2024
Date	07-03-2025
Time of Inspection of Property	12.00 noon to 14.00 pm
Reserve Price	Rs. 2,31,54,200.00/- (Rupees Two Crore Thirty-One Lakhs Fifty-Four Thousand and Two Hundred Only)
Earnest Money Deposit	Rs. 23,15,420/- (Rupees Twenty Three Lakhs Fifteen Thousand and Four Hundred and Twenty Rupees Only)
EMD Remittance Details: Bank Account – “PHOENIX TRUST FY 22-21” Current Account: 5846242904; Kotak Mahindra Bank Limited, Branch: Kalina, Mumbai, IFSC Code: KKBK0000631	
Incremental Value	Rs. 50,000/- (Rupees Fifty Thousand Only) & in such multiples
Last date for submission of EMD	17-03-2024 (Monday) before 4 pm
Date & Time of E-Auction	18-03-2024 (Tuesday) between 12:00 noon to 13.00 pm
Link for Tender documents of the property: https://phoenixarc.co.in?p=5612&preview=true	

Terms and Conditions of E- Auction

1. The Auction Sale is being conducted by the Authorised Officer under the provisions of SARFAESI Act with the aid and through e-auction. Auction/ Bidding shall be only through “Online Electronic Mode” through the website <https://www.bankeauctions.com> M/s. C1 India Private Limited is the service provider to arrange platform for e-auction.
2. The Auction is conducted as per the Terms and Conditions of the Bid Document and as per the procedure set out therein. For detailed terms and conditions of the sale the bidders may go through the website of Phoenix, www.phoenixarc.co.in and the links mentioned above as well as the website of the service provider, www.bankeauctions.com for bid documents, the details of the secured assets put up for auction/ obtaining the bid form.
3. The bidders may participate in the e-auction quoting/ bidding from their own offices/ place of their choice. Internet connectivity shall have to be arranged by each bidder himself/itself. The Authorised Officer/ Phoenix/ service provider shall not be held responsible for the internet connectivity, network problems, system crash down, power failure etc.
4. For details, help, procedure and online training on e-auction, prospective bidders may contact **Mr. Bhavik Pandya of M/s C 1 India Private Limited, Contact Number: +91-124-4302020/2021/2022/2023/2024, +91-8866682937 , Email ID: support@bankeauctions.com; maharashtra@c1india.com**
5. Bidders may also go through the website of Phoenix, www.phoenixarc.co.in for verifying the details of the secured asset put up for auction/ obtaining the bid form.
6. The e-auction will be conducted on the date and time mentioned herein above, when the secured asset mentioned above will be sold on “**AS IS WHERE IS**” basis and “**AS IS WHAT IT IS**” & “**WITHOUT RECOURSE**” condition.
7. All the intending purchasers/ bidders are required to register their name in the portal mentioned above as <https://www.bankeauctions.com> and get user ID and password free of cost to participate in the e-auction on the date and time as mentioned aforesaid.
8. For participating in the e-auction, intending purchasers/ bidders will have to submit the details of payment of refundable Earnest Money Deposit of 10% of the Reserve Price of the Secured asset along with copies of the PANCARD, Board Resolutions in case of Company and Address Proof as more particularly described in Tender Document on or before the **Last date for submission of EMD** as

mentioned above. **Intending purchasers/bidders are required to submit EMDs for the property detailed herein above.**

9. The prospective/intending bidder shall furnish an undertaking that he/she/it is not dis-qualified as per provisions of Sec.29 (A) of Insolvency and Bankruptcy Code,2016 and failure to furnish such undertaking along with the KYC documents, shall automatically disqualify or he/she/it bid will be rejected.
10. The successful purchaser/ bidder shall deposit the 25% (inclusive of EMD) of his/ its offer for each of the Item by way of RTGS/NEFT to the account mentioned hereinabove on or before the close of banking hours on **the date of Auction mentioned above or not later than the next working day**, which deposit shall have to be confirmed by Phoenix, failing which the sale will be deemed to have been failed and the EMD of the said successful purchaser/ bidder shall be forfeited.
11. The EMD of all other bidders who did not succeed in the e-auction will be refunded by Phoenix within 5 working days of the closure e-auction. The EMD shall not carry any interest.
12. The balance amount of purchase consideration shall be payable by the successful purchaser/ bidder on or before the fifteenth (15) day of confirmation of sale of the said secured asset or such extended period as may be agreed upon in writing. In case of default, all amounts deposited till then shall be liable to be forfeited.
13. For inspection of the property/is or more information, the prospective bidders may contact **Mr. Mahesh Malunekar/ Ms. Lopa Joshi at following email address mahesh.m@phoenixarc.co.in/lopa.joshi@phoenixarc.com /(email) or on +91-09920381684/+91-8655458532 (mobile).**
14. At any stage of the auction, the Authorised Officer may accept/reject/modify/cancel the e-auction/bid/offer or post-pone the auction without assigning any reason thereof and without any prior notice.
15. The successful purchaser/bidder shall bear any statutory dues, taxes, fees payable, stamp duty, registration fees, etc. that is required to be paid in order to get the property conveyed/delivered in his/her/its favour as per the applicable law.
16. The payment of all statutory/non statutory dues, taxes, rates, assessments, charges, society dues, fees etc. owing to the property during any time, shall be the sole responsibility of the successful bidder only.
17. The successful purchaser/bidder shall be solely responsible for any cost / expenses / fees / charges etc. payable to the society/any other authority towards the transfer of the rights in its / his / her favour.
18. The Borrower/ Mortgagor, who are liable for the said outstanding dues, shall treat this Sale Notice as a notice under Rule 8 Clause (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, about the holding of the above-mentioned auction sale.
19. The intending bidders shall make their own independent enquiries regarding encumbrances, title of secured asset put on auction and claims/rights/dues affecting the secured assets, including statutory dues, etc prior to submitting their bid. The auction advertisement does not constitute and will not constitute any commitment or any representation of Phoenix. The authorized officer of Phoenix shall not be responsible in any way for any third-party claims/rights/due.
20. The particulars specified in the e-auction notice published in the newspaper have been stated to the best of the information of the Authorised Officer; however, the Authorised Officer shall not be responsible/liable for any error, misstatement or omission.
21. In the event, the e-auction scheduled hereinabove fails for any reason whatsoever, Phoenix has the right to sell the secured asset by any other methods under the provisions of Rule 8(5) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 and SARFAESI Act, 2002.

Place : **Lucknow**
Date : 05-02-2025

Sd/-
Authorised Officer
Phoenix ARC Private Limited
(Trustee of Phoenix Trust-FY 22-21)

ANNEXURE-II
DETAILS OF BIDDER

(Read carefully the terms and conditions of sale before filling-up and submitting the bid)

1. Name(s) of Bidder (in Capital) :
(In case the bidder is an entity, constitution of such entity and representative capacity supported with authorization to be submitted)
2. Father's/Husband's Name :
3. Postal Address of Bidder(s) :
4. Phone/Cell Number and E-mail ID :
5. Bank Account details to which EMD amount to be returned
 - i) Bank A/c. No. :
 - ii) IFSC Code No. :
 - iii) Branch Name :
6. Date of submission of bid :
7. PAN Number :
8. Property Item No. :
9. Whether EMD remitted : Yes/No.
10. EMD remittance details* : Date of remittance _____
: Name of Bank _____
: Branch _____
: A/c. No. _____
: IFSC Code No. _____
12. Bid Amount quoted : _____ (Rupees _____

_____)

I/We declare that I/We have read and understood all the above terms and conditions of auction sale and the auction notice published in the daily newspaper and the tender document which are also available in the website <https://www.bankeauctions.com> and shall abide by them. I/We also undertake to improve my/our bid by one bid incremental value notified in the sale notice if I/We am/are the sole successful-bidder.

.....
(Name & Signature of the Bidder)

***Mandatory: Bidders are advised to preserve the EMD Remittance Challan.**

Note: This document is required to be duly filled in and signed by the bidder and thereafter uploaded in the website <https://www.bankeauctions.com> during the time of submission of the bid.

Annexure III
Declaration from Bidder /Buyer*

Date:

To,

Phoenix ARC Private Limited

Trustee of Phoenix Trust-FY 22-21

Dear Sir/Madam,

Subject: Payment under auction dated / private treaty sale

Ref: Deposit of Rs made by me on / being highest bidder buyer for auction of held on cash/cheque/DD/RTGS/NEFT no vide _____

I / We hereby declare:

- I have participated in the bidding process of (property details) and have been declared highest bidder vide letter dated / I am buying (property details)
- The source of the amount being paid by me is _____
- My PAN is..... (copy of which is attached) / I do not have a PAN hence I am attaching herewith Form 60 along with KYC documents.
(Strike out whichever is not applicable)
- I am responsible for declaring the same in my Income tax return.
- I am not politically exposed person
- I have not violated any provision of Foreign Exchange Management Act
- I have not received notice from Directorate of Enforcement.
- I do not have any account in the name of individuals / entities (buyers of secured assets / vendors /security receipt investors) appearing in the lists of individuals and entities, suspected of having terrorist links, which are approved by and periodically circulated by the United Nations Security Council (UNSC).

The details of the two lists are as under:

- o The "ISIL (Da'esh) &Al-Qaida Sanctions List", established and maintained pursuant to Security Council resolutions 1267/1989/2253, which includes names of individuals and entities associated with the Al-Qaida is available at (<https://scsanctions.un.org/ohz5jen-alqaida.html>)
- o The "Taliban Sanctions List", established and maintained pursuant to Security Council resolution 1988 (2011), which includes names of individuals and entities associated with the Taliban is available at (<https://scsanctions.un.org/3ppp1en-taliban.htm>)

I / We hereby further declare:

1. I hereby unconditionally state, submit and confirm that I am not disqualified from purchasing the immovable property owned by _____("Mortgagor") mortgaged in favour of Phoenix ARC Private Limited (**Phoenix Trust-FY 22-21**) ("Phoenix") in the loan account of("Borrower"), pursuant to the provisions Section 29A of The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 ("IBC") and/or otherwise._

2. I hereby state, submit and declare that none of: (a) the Bidder / Buyer, being the Proposed Investor; (b) any other person acting jointly or in concert with the Bidder / Buyer:
 - a) is an undischarged insolvent;
 - b) is a willful defaulter in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India (“RBI”) issued under the Banking Regulation Act, 1949 (the “BR Act”);
 - c) at the time of investing and subscribing to the security receipts, has an account or an account of the Borrower which is under management or control of such person(s) or of whom such person(s) is a promoter, classified as non-performing asset in accordance with the guidelines of the RBI issued under the BR Act or the guidelines of a financial sector regulator issued under any other law for the time being in force;
 - d) has been convicted for any offence punishable with imprisonment:
 - (i) for 2 (two) years or more under any Act specified under the Twelfth Schedule of the IBC; or
 - (ii) for 7 (seven) years or more under any law for the time being in force.
 - e) is disqualified to act as a director under the Companies Act, 2013;
 - f) is prohibited by the Securities and Exchange Board of India (“SEBI”) from trading in securities or accessing the securities markets;
 - g) has been a promoter or in the management or control of a Borrower in which a preferential transaction, undervalued transaction, extortionate credit transaction or fraudulent transaction has taken place;
 - h) has executed a guarantee in favour of a creditor in respect of a Borrower against which an application for insolvency resolution made by such creditor has been admitted under the IBC and such guarantee has been invoked by the creditor and remains unpaid in full or part;
 - i) is subject to any disability, corresponding to abovementioned clauses (a) to (h) above, under any law in a jurisdiction outside India;
 - j) has a connected person not eligible under the abovementioned clauses (a) to (i). A list of all the connected persons is set out in Annexure hereto.
3. I, hereby state and confirm that the Bidder / Buyer and each of its Affiliates are not Related Parties (as defined in the Companies Act, 2013 (as amended from time to time) and any other applicable law for the time being in force) of the Borrower.
4. I hereby undertake and confirm that I shall immediately intimate Phoenix, and in no event more than 5 (five) days, in the event the Bidder / Buyer or any of its Affiliates qualify to be Related Parties of the Borrower at any time.

5. I irrevocably and unconditionally submit to the Phoenix, that the list of the connected persons set out in Annexure I hereto is exhaustive in all respects and the names of all the connected persons have been set out thereunder without any omission whatsoever.
6. I submit to the Phoenix, that the Bidder / Buyer unconditionally and irrevocably agrees and undertakes that it shall make full disclosure in respect of itself and all its connected persons.
7. I submit that, as and when any of the statements made hereunder are invalid, incorrect or misrepresented by us/ any other person acting in jointly or in concert with us, I agree that such an event shall be considered to be a breach of the terms and hold the Bidder / Buyer ineligible.
8. I agree and acknowledge that Phoenix is entitled to rely on the statements and affirmations made in this declaration for the purposes of determining the eligibility and assessing, agreeing and issuing the No Objection for sale in favour of the Bidder / Buyer.
9. I, unconditionally and irrevocably undertake, that we shall provide all data, documents and information as may be required to verify the statements made under this declaration, to the satisfaction of Phoenix.
10. I agree that in the event any of the above statements are found to be untrue or incorrect, then the Bidder / Buyer unconditionally agrees to indemnify and hold harmless the Phoenix against any losses, claims or damages incurred by the Phoenix, as the case may be, on account of such ineligibility of the Bidder / Buyer.

Signature:

Name of the Bidder / Buyer / Depositor:

*If the Source of fund is through some Third Party other than the Bidder / Buyer, this declaration is to be obtained from such third party as well

Annexure-IV

KYC Documents for bidder to be submitted as per the below mentioned list:

For Individuals

	Documents
Proof of identity	one copy of any one of the following: <ul style="list-style-type: none">• PAN card• Passport• Driving License• Aadhaar Card• Voter's Identity Card• Job Card issued by NREGA duly signed by an officer of State Government• Letter issued by the National Population Register Certificate or permission from regulator for investment/remittance in India.
Proof of address	One copy of any one of the following containing addresses (if address not mentioned in identity proof): <ul style="list-style-type: none">• Utility bill which is not more than two months old of any service provider (electricity, telephone, postpaid mobile phone, piped gas, water bill)• Aadhar Card• Property or Municipal Tax receipt• Pension or family pension payment orders (PPOs) issued to retired employees by Government Departments or Public Sector Undertakings, if they contain the address.• Letter of allotment of accommodation from employer issued by State or Central Government departments, statutory or regulatory bodies, public sector undertakings, scheduled commercial banks, financial institutions and listed companies and leave and license agreements with such employers allotting official accommodation.
Proof of address (Foreign National)	Documents issued by Government departments of foreign jurisdictions and letter issued by Foreign Embassy or Mission in India.

For Non-Individuals

	Documents
Auction Bidders, Promoter/Guarantors offering settlement,	<ul style="list-style-type: none">• Certificate of Incorporation / Registration Certificate (if applicable)

buyers under private treaty sale.	<ul style="list-style-type: none">• Memorandum & Articles of Association / Partnership Deed / Trust Deed• PAN Card• A resolution from the Board of Directors or Board of Trustee/authority letter granted to transact on its behalf.• Obtaining and verification of OVD of officers & employees holding authority to transact on its behalf.• OVD of ultimate Beneficial Owner
--	--

Annexure – V
Confirmation by Bidder Regarding Receipt of Training

To,
The Authorised Officer,
Phoenix ARC Private Limited,
As the Trustee of Phoenix Trust-FY22-21
Mumbai – 400 098.

Sub: Confirmation regarding receipt of e- Auction Training.

Dear Sir,

This has reference to the Terms & Conditions for the e-Auction mentioned in the Tender document and available on the website <https://www.bankeauctions.com>

I/We confirm that:

- a. I/We have read and understood the Terms and Condition governing the e-Auction as mentioned in Tender Document available on the website <https://www.bankeauctions.com> and also e-Auction notice published by Phoenix ARC Private Limited in daily newspapers and unconditionally agree to them.
- b. I/We also confirm that we have taken training on the on-line bidding/auction and confirm that we are fully conversant with the functionality and process.
- c. I/We confirm that bank and **M/S. C1 India Pvt. Ltd.**, shall not be liable & responsible in any manner whatsoever for my/our failure to access & bid on the e-Auction platform due to loss of internet connectivity, electricity failure, virus attack, problems with the PC, any other unforeseen circumstances etc. before or during the auction event.
- d. We, hereby confirm that we will honour the Bids placed by us during the e-Auction process.

With regards

Signature of the Bidder:

Name of Bidder:

Date:

Address of Bidder:

Copy to: M/S. C1 India Pvt. Ltd., Gulf Petro Chem, Building No.301, 1st Floor, Udyog Vihar Phase-2, Gurgaon (Haryana)-122015, Help Line No: 0124-4302020/21/22/23/24, Help Line e-mail ID: support@bankeauctions.com

Note: This document is required to be duly filled in and signed by the bidder and thereafter sent the scanned copy of that to the Authorised Officer, Phoenix ARC Private Limited , acting in capacity of Trustee for Phoenix Trust-FY 22-21 mentioned in the Sale Notice just after availing training on e-Auction with a copy to support@bankeauctions.com

Annexure – VI
Price Confirmation Letter by Bidder(s)

To,
The Authorised Officer,
Phoenix ARC Private Limited,
As the Trustee of Phoenix Trust-FY22-21
Mumbai – 400 098.

Sub.: Auction Sale of Property mortgaged in **M/s Loom & Craft** Final bid quoted during e-Auction - **Sale of Property by** Phoenix ARC Private Limited

Dear Sir,

We confirm that we have quoted the highest bid of Rs._____/- (In Words _____) for the purchase of the property mentioned in the Sale Notice in the subject Auction during e-Auction of the said property conducted by the Authorised Officer of M/s. Phoenix ARC Private Limited, through the website of M/S C1 India Pvt. Ltd. on _____.

Yours sincerely,

Signature:

Name of Bidder:

Date:

Copy to: M/s. C1 India Pvt. Ltd., Gulf Petro Chem, Building No.301, 1st Floor, Udyog Vihar Phase-2, Gurgaon (Haryana)-122015, Help Line No: 0124-4302020/21/22/23/24, Help Line e-mail ID: support@bankeauctions.com

Note: This document is required to be duly filled in and signed by the H1 bidder and thereafter e-mail scanned letter to the Authorised Officer, Phoenix ARC Private Limited mentioned in the Sale Notice & copy to support@bankeauctions.com, immediately on completion of the bidding.

01031/01032 - Lokmanyatilik Tilak T. - Banaras - Lokmanyatilik Tilak T. Kumbh Mela Exp. Special Train

Train No. 01031 Ex. Lokmanyatilik Tilak T. on 05.02.2025 & 08.02.2025 (Wed, Sat.) = 02 trips
Train No. 01032 Ex Banaras on 06.02.2025 & 09.02.2025 (Thu, Sun.) = 02 trips

01031		Station		01032	
Arr.	Dep.	↓	↑	Arr.	Dep.
--	00:05	Lokmanyatilik Tilak T.-Banaras		16:40	---
00:20	00:23	Lokmanyatilik Tilak T.	Lokmanyatilik Tilak T. Term.	15:20	15:23
00:47	00:50	Lokmanyatilik Tilak T.	Kalyan Junction	14:55	14:58
02:30	02:35	Lokmanyatilik Tilak T.	Igatpuri	13:05	13:10
03:12	03:15	Lokmanyatilik Tilak T.	Nashik Road	11:38	11:40
05:52	05:55	Lokmanyatilik Tilak T.	Jalgaon Junction	08:38	08:40
06:25	06:30	Lokmanyatilik Tilak T.	Bhusaval Junction	08:10	08:15
13:10	13:20	Lokmanyatilik Tilak T.	Itarsi	02:30	02:40
14:30	14:32	Lokmanyatilik Tilak T.	Pipariya	00:03	00:05
16:20	16:22	Lokmanyatilik Tilak T.	Narsinghpur	22:26	22:28
18:15	18:25	Lokmanyatilik Tilak T.	Jabalpur	21:00	21:10
19:40	19:50	Lokmanyatilik Tilak T.	Katni	19:25	19:30
20:33	20:35	Lokmanyatilik Tilak T.	Maihar	18:38	18:40
22:00	22:05	Lokmanyatilik Tilak T.	Satna Junction	18:05	18:10
00:03	00:05	Lokmanyatilik Tilak T.	Manikpur	17:00	17:02
01:45	01:50	Lokmanyatilik Tilak T.	Prayagraj Chheoki	14:15	14:20
03:13	03:15	Lokmanyatilik Tilak T.	Mirzapur	12:18	12:20
04:05	04:07	Lokmanyatilik Tilak T.	Chunar	11:50	11:52
06:45	---	Lokmanyatilik Tilak T.	Banaras	---	10:00

Rake Composition: AC-II-02, AC-III-Economy-06, Sleeper-06, General 2nd Class-04, Generator cum Luggage Car-01, LSLRD-01 Total=20 Coaches
CPROT-118 Chief Passenger Trans. Manager, Gorakhpur
Do not travel with flammable items in trains

Torrent Power Limited
Registered Office: "Samanvay",
600, Tapovan, Ambawadi,
Ahmedabad - 380 015,
Ph.: 079-26628000

EXTRACT OF STATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2024

Particulars	[₹ in crore except per share data]		
	Quarter ended	Nine months ended	Quarter ended
	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2023
	Un-audited	Un-audited	Un-audited
Total income from operations	6,499.38	22,708.92	6,366.09
Net profit for the period before tax and exceptional items	629.90	2,633.23	513.35
Net profit for the period before tax and after exceptional items	629.90	2,633.23	513.35
Net profit for the period after tax and exceptional items	489.33	1,981.39	374.13
Total comprehensive income for the period (after tax) (attributable to owners of the Company)	476.60	1,922.99	355.36
Equity share capital	503.90	503.90	480.62
Reserves (excluding revaluation reserve as shown in the balance sheet of previous year)			11,581.09 (as at 31.03.2024)
Earnings per share (of ₹ 10/- each)			
Basic (₹)	9.76	39.94	7.49
Diluted (₹)	9.76	39.94	7.49

EXTRACT OF THE STATEMENT OF STANDALONE FINANCIAL RESULTS

Particulars	[₹ in crore]		
	Quarter ended	Nine months ended	Quarter ended
	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2023
	Un-audited	Un-audited	Un-audited
Total income from operations	4,746.26	17,220.21	4,680.77
Net profit for the period before tax and exceptional items	584.89	2,454.05	521.70
Net profit for the period before tax and after exceptional items	584.89	2,454.05	521.70
Net profit for the period after tax and exceptional items	368.70	1,761.21	383.74
Total comprehensive income for the period (after tax)	370.07	1,756.63	379.91

Notes :
1 The Board of Directors of the Company has approved interim dividend of ₹ 14.00 per equity share of ₹ 10/- each fully paid up in its meeting held on February 04, 2025.
2 The above is an extract of the detailed financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the same, along with the notes, are available on the websites of Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website (URL: <https://www.torrentpower.com/index.php/investors/financial?fy=2024-25>). The same can be accessed by scanning the QR code provided below.

Place : Ahmedabad
Date : February 04, 2025



SALUTE THE SOLDIER
ASI/EKE BIDHI CHAND DHEP DULHASTI
06-02-1993
CISF proudly remembers the supreme sacrifice of the brave-heart. On this day, he laid down his life at the altar of duty while fighting with militants. His courage and bravery would remain an abiding source of inspiration for the force. The force will remain eternally indebted to him for this noblest deed.

BORDER SECURITY FORCE
L/NK CHAMAN LAL
19.05.1951 - 05.02.1992
Bordermen Salute and proudly remember today their brave comrade, who made supreme sacrifice while fighting militants in Srinagar, J&K.

BORDER SECURITY FORCE
NK RADHE SHYAM DUBEY
12.10.1951 - 05.02.1997
Bordermen Salute and proudly remember today their brave comrade, who made supreme sacrifice while fighting militants in Badgam Area, Srinagar, J&K.

BORDER SECURITY FORCE
L/NK DIWAN SINGH
15.07.1964 - 05.02.2000
Bordermen Salute and proudly remember today their brave comrade, who made supreme sacrifice while fighting militants in Srinagar, J&K.

BORDER SECURITY FORCE
CT MOHD RASHID
07.05.1955 - 05.02.1991
Bordermen Salute and proudly remember today their brave comrade, who made supreme sacrifice while fighting militants in Sopore, J&K.

CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
5 February 2020
Shaheed Constable **RAMESH RANJAN** 73 Bn 2-3-1989 To 5-2-2020
On 5 February 2020, the troops of 73 Battalion set up a NAKA in Srinagar. Around 11 AM, three terrorists on a scooter, concealing weapons under their shrouds, were stopped for checking. As Constable Ramesh Ranjan asked them to dismount for frisking, they opened fire. In a split second, he retaliated, instantly neutralizing one terrorist. Despite severe injuries, he held his ground, pinning the attackers down. His swift action enabled his team to eliminate the remaining terrorists. He was evacuated to the Hospital, where he attained martyrdom, displaying extraordinary courage till his last breath.

CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
5 February 1979
Shaheed Constable **Shiv Poojan Yadav** 36 Bn 15-7-1951 To 5-2-1979
On 5 February 1979, Constable Naresh Prasad and Constable Shiv Poojan Yadav of 36 Battalion, deployed in Poonch, bravely confronted violent riots in the town. Displaying exceptional diligence, loyalty, and commitment to duty, they made the ultimate sacrifice in the line of duty.

CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
5 February 2004
Shaheed Constable **Ram Surat Upadhyay** 1 Bn 1-7-1965 To 5-2-2004
On 5 February 2004, troops of 1 Battalion were conducting a road-opening patrol in Jirania, West Tripura, when insurgents ambushed them near Chaiguria village. The troops launched a fierce counter-attack despite the enemy's tactical advantage. Leading from the front Head Constable Ram Surat Upadhyay, Constable Subba Singh, and Constable Girish Chand Yadav sustained severe bullet injuries but fought valiantly, inflicting heavy losses on the insurgents. Their fearless assault forced the enemy to retreat before they made the supreme sacrifice in the line of duty.

CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
5 February 2004
Shaheed Constable **Girish Chand Yadav** 1 Bn 20-3-1972 To 5-2-2004
On 5 February 2004, troops of 1 Battalion were conducting a road-opening patrol in Jirania, West Tripura, when insurgents ambushed them near Chaiguria village. The troops launched a fierce counter-attack despite the enemy's tactical advantage. Leading from the front Head Constable Ram Surat Upadhyay, Constable Subba Singh, and Constable Girish Chand Yadav sustained severe bullet injuries but fought valiantly, inflicting heavy losses on the insurgents. Their fearless assault forced the enemy to retreat before they made the supreme sacrifice in the line of duty.

CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
5 February 2004
Shaheed Constable **Shubba Singh** 1 Bn 27-9-1971 To 5-2-2004
On 5 February 2004, troops of 1 Battalion were conducting a road-opening patrol in Jirania, West Tripura, when insurgents ambushed them near Chaiguria village. The troops launched a fierce counter-attack despite the enemy's tactical advantage. Leading from the front Head Constable Ram Surat Upadhyay, Constable Subba Singh, and Constable Girish Chand Yadav sustained severe bullet injuries but fought valiantly, inflicting heavy losses on the insurgents. Their fearless assault forced the enemy to retreat before they made the supreme sacrifice in the line of duty.

CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
5 February 2004
Shaheed Constable **Girish Chand Yadav** 1 Bn 20-3-1972 To 5-2-2004
On 5 February 2004, troops of 1 Battalion were conducting a road-opening patrol in Jirania, West Tripura, when insurgents ambushed them near Chaiguria village. The troops launched a fierce counter-attack despite the enemy's tactical advantage. Leading from the front Head Constable Ram Surat Upadhyay, Constable Subba Singh, and Constable Girish Chand Yadav sustained severe bullet injuries but fought valiantly, inflicting heavy losses on the insurgents. Their fearless assault forced the enemy to retreat before they made the supreme sacrifice in the line of duty.

CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
5 February 2004
Shaheed Constable **Shubba Singh** 1 Bn 27-9-1971 To 5-2-2004
On 5 February 2004, troops of 1 Battalion were conducting a road-opening patrol in Jirania, West Tripura, when insurgents ambushed them near Chaiguria village. The troops launched a fierce counter-attack despite the enemy's tactical advantage. Leading from the front Head Constable Ram Surat Upadhyay, Constable Subba Singh, and Constable Girish Chand Yadav sustained severe bullet injuries but fought valiantly, inflicting heavy losses on the insurgents. Their fearless assault forced the enemy to retreat before they made the supreme sacrifice in the line of duty.

CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
5 February 2004
Shaheed Constable **Girish Chand Yadav** 1 Bn 20-3-1972 To 5-2-2004
On 5 February 2004, troops of 1 Battalion were conducting a road-opening patrol in Jirania, West Tripura, when insurgents ambushed them near Chaiguria village. The troops launched a fierce counter-attack despite the enemy's tactical advantage. Leading from the front Head Constable Ram Surat Upadhyay, Constable Subba Singh, and Constable Girish Chand Yadav sustained severe bullet injuries but fought valiantly, inflicting heavy losses on the insurgents. Their fearless assault forced the enemy to retreat before they made the supreme sacrifice in the line of duty.

CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
5 February 2004
Shaheed Constable **Shubba Singh** 1 Bn 27-9-1971 To 5-2-2004
On 5 February 2004, troops of 1 Battalion were conducting a road-opening patrol in Jirania, West Tripura, when insurgents ambushed them near Chaiguria village. The troops launched a fierce counter-attack despite the enemy's tactical advantage. Leading from the front Head Constable Ram Surat Upadhyay, Constable Subba Singh, and Constable Girish Chand Yadav sustained severe bullet injuries but fought valiantly, inflicting heavy losses on the insurgents. Their fearless assault forced the enemy to retreat before they made the supreme sacrifice in the line of duty.

CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
5 February 2004
Shaheed Constable **Girish Chand Yadav** 1 Bn 20-3-1972 To 5-2-2004
On 5 February 2004, troops of 1 Battalion were conducting a road-opening patrol in Jirania, West Tripura, when insurgents ambushed them near Chaiguria village. The troops launched a fierce counter-attack despite the enemy's tactical advantage. Leading from the front Head Constable Ram Surat Upadhyay, Constable Subba Singh, and Constable Girish Chand Yadav sustained severe bullet injuries but fought valiantly, inflicting heavy losses on the insurgents. Their fearless assault forced the enemy to retreat before they made the supreme sacrifice in the line of duty.

CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
5 February 2004
Shaheed Constable **Shubba Singh** 1 Bn 27-9-1971 To 5-2-2004
On 5 February 2004, troops of 1 Battalion were conducting a road-opening patrol in Jirania, West Tripura, when insurgents ambushed them near Chaiguria village. The troops launched a fierce counter-attack despite the enemy's tactical advantage. Leading from the front Head Constable Ram Surat Upadhyay, Constable Subba Singh, and Constable Girish Chand Yadav sustained severe bullet injuries but fought valiantly, inflicting heavy losses on the insurgents. Their fearless assault forced the enemy to retreat before they made the supreme sacrifice in the line of duty.

Phoenix ARC Private Limited
Regd. Office: 3rd Floor, Wallace Towers (earlier known as Shiv Building), 139/140/B/1, Crossing of Sahar Road and Western Express Highway, Vile Parle East, Mumbai, Maharashtra - 400057, India
CIN: U67190MH2007PTC168303 Email: info@phoenixarc.co.in Website: www.phoenixarc.co.in

ONLINE E-AUCTION SALE OF ASSETS

PUBLIC NOTICE FOR ONLINE E-AUCTION

In exercise of the powers under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act) read with Rules 8 & 9 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (RULES) and pursuant to the possession of the secured asset of the borrower/guarantors/mortgagors mentioned hereunder vested with the Authorised Officer under the said SARFAESI Act and RULES for recovery of the secured debts, the Authorised Officer has decided to sell the secured assets by auction sale.

Notice is hereby given to the public in general and to the borrower/guarantors/mortgagors in particular, that the under mentioned properties mortgaged to Phoenix ARC Private Limited acting in capacity as Trustee of the respective trusts mentioned below (Phoenix) pursuant to assignment of debt by various Banks mentioned below (Assignor Banks) in favour of Phoenix vide the respective Assignment Agreements more particularly mentioned below will be sold on "AS IS WHERE IS, AS IS WHATVER THERE IS AND WITHOUT RECOURSE BASIS" condition, by way of "online e-auction" for recovery of dues and further interest, charges and costs etc. as detailed below in the provisions of SARFAESI Act read with Rules 8 & 9 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002) through website <https://www.bankauctions.com> as per the details given below:

Name of Borrower	M/s. Loom and Craft (Represented through its Proprietor Mr. Mohd. Rauf) (Borrower) 350/59A, FCI Road, Daryapur, Nandan Khara, Lucknow, Uttar Pradesh- 226017.
Name of Co-Obligor/ Guarantors/Mortgagors/Partners	Mr. Mohd. Rauf, Mrs. Saba Rauf, Mr. Mohd. Maroof, Mr. Fouzia Khatoun
Details of Assignment	Assignor - Hero Fincorp Limited; Trust - Phoenix Trust FY 22-21; Date of Assignment - 30.12.2021
Amount due as per SARFAESI Notice dated Rs. 2,08,71,174/- (Rupees Two Crore Eight Lakhs Seventy-One Thousand One Hundred and Seventy-Four Only) as on 17.06.2019 together with further interest and other cost and charges and expenses as mentioned in the Demand Notice dated 02.07.2019	
Description of Immoveable Properties:	House No. 350/59A, situated at Nanda kheda, Ward: Labour colony, Lucknow- 226017. Boundaries: East:- remaining part of building no. 350/59A, West:- property of Ratan Maheshari, (building) North:- 20-foot-wide road, South:- House Ratan Maheshari. *Admeasuring 2,500.208 Sq. feet (sale deed 3909/04 admeasuring 1404.75 Sq.ft and 3910/04 admeasuring 1095.458 Sq.ft)
Possession details	Phoenix ARC has taken Physical possession of the above-mentioned property as per provisions of SARFAESI Act, 2002 on 18-12-2024
Date Time of Inspection of Property	07-03-2025 12:00 Noon to 14:00 PM
Reserve Price	Rs. 2,31,54,200.00/- (Rupees Two Crore Thirty-One Lakhs Fifty-Four Thousand and Two Hundred Only)
Earnest Money Deposit	Rs. 23,15,420/- (Rupees Twenty Three Lakhs Fifteen Thousand and Four Hundred and Twenty Only)
EMD Remittance Details:	Bank Account - "PHOENIX TRUST FY 22-21" Current Account: 5846242904; Kotak Mahindra Bank Limited, Branch: Kallina, Mumbai, IFSC Code: KKBK0000631
Incremental Value	Rs. 50,000/- (Rupees Fifty Thousand Only) & in such multiples
Last date for submission of EMD	17-03-2024 (Monday) before 4 PM
Date & Time of E-Auction	18-03-2024 (Tuesday) between 12:00 Noon to 13:00 PM
Link for Tender documents of the property:	https://phoenixarc.co.in?p=5612&preview=true

Terms & Conditions:
1. The Auction Sale is being conducted by the Authorised Officer under the provisions of SARFAESI Act with the aid and through e-auction. Auction/Bidding shall be only through "Online Electronic Mode" through the website <https://www.bankauctions.com> M/s. C1 India Private Limited is the service provider to arrange platform for e-auction. 2. The Auction is conducted as per the Terms and Conditions of the Bid Document and as per the procedure set out therein. For detailed terms and conditions of the sale the bidders may go through the website of Phoenix, www.phoenixarc.co.in and the links mentioned above as well as the website of the service provider, www.bankauctions.com for bid documents, the details of the secured assets put up for auction/obtaining the bid form. 3. The bidders may participate in the e-auction quoting/bidding from their own offices/place of their choice. Internet connectivity shall be provided by each bidder himself/self/itself. The Authorised Officer/Phoenix service provider shall not be held responsible for the internet connectivity, network problems, system crash down, power failure etc. 4. For details, help, procedure and online training on e-auction, prospective bidders may contact Mr. Bhavik Pandya of M/s C1 India Private Limited, Contact Number: +91-124-4302020/2021/2022/2023/2024, +91-8866682937, E-mail ID: support@bankauctions.com; maharashtra@c1india.com. 5. Bidders may also go through the website of Phoenix, www.phoenixarc.co.in for verifying the details of the secured asset put up for auction/obtaining the bid form. 6. The e-auction will be conducted on the date and time mentioned herein above, when the secured asset mentioned above will be sold on "AS IS WHERE IS" basis and "AS IS WHAT IT IS" & "WITHOUT RECOURSE" condition. 7. All the intending purchasers/bidders are required to register their name in the portal mentioned above as <https://www.bankauctions.com> and get user ID and password free of cost to participate in the e-auction on the date and time as mentioned aforesaid. 8. For participating in the e-auction, intending purchasers/bidders will have to submit the details of payment of refundable Earnest Money Deposit of 10% of the Reserve Price of the Secured asset along with copies of the PANCARD, Board Resolutions in case of Company and Address Proof as more particularly described in Tender Document on or before the Last date for submission of EMD as mentioned above. Intending purchasers/bidders are required to submit EMDs for the property detailed herein above. 9. The prospective/intending bidder shall furnish an undertaking that he/she/it is not dis-qualified as per provisions of Sec.29 (A) of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and failure to furnish such undertaking along with the KYC documents, shall automatically disqualify or he/she/it bid will be rejected. 10. The successful purchaser/bidder shall deposit the 25% (inclusive of EMD) of his offer for each of the item by way of RTGS/NEFT to the account mentioned hereinabove on or before the close of banking hours on the date of auction mentioned above or not later than the next working day, which deposit shall have to be confirmed by Phoenix, failing which the sale will be deemed to have been failed and the EMD of the said successful purchaser/bidder shall be forfeited. 11. The EMD of all other bidders who did not succeed in the e-auction will be refunded by Phoenix within 5 working days of the closure e-auction. The EMD shall not carry any interest. 12. The balance amount of purchase consideration shall be payable by the successful purchaser/bidder on or before the fifteenth (15) day of confirmation of sale of the said secured asset or such extended period as may be agreed upon in writing. In case of default, all amounts deposited till then shall be liable to be forfeited. 13. For inspection of the property/its or more information, the prospective bidders may contact Mr. Mahesh Malunjar/ Ms. Lopa Joshi at following email address mahesh.m@phoenixarc.co.in/lopa.joshi@phoenixarc.com (email) or on +91-99920381684/+91-8655458532 (mobile). 14. At any stage of the auction, the Authorised Officer may accept/reject/modify/cancel the e-auction/bid/offer or post-pone the auction without assigning any reason therefor and without any prior notice. 15. The successful purchaser/bidder shall bear any statutory dues, taxes, fees payable, stamp duty, registration fees, etc. that is required to be paid in order to get the property conveyed/delivered in his/her/its favour as per the applicable law. 16. The payment of all statutory/non statutory dues, taxes, rates, assessments, charges, society dues, fees etc. owing to the property during any time, shall be the sole responsibility of the successful bidder only. 17. The successful purchaser/bidder shall be solely responsible for any cost / expenses / fees / charges etc. payable to the society/any other authority towards the transfer of the rights in his / her favour. 18. The Borrower/Mortgagor, who are liable for the said outstanding dues, shall treat this Sale Notice as a notice under Rule 8 Clause (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, about the holding of the above-mentioned auction sale. 19. The intending bidders shall make their own independent enquiries regarding encumbrances, title of secured asset put up on auction and claims/rights/dues affecting the secured assets, including statutory dues, etc prior to submitting their bid. The auction advertisement does not constitute and will not constitute any commitment or any representation of Phoenix. The authorized officer of Phoenix shall not be responsible in any way for any third-party claims/rights/dues. 20. The particulars specified in the e-auction notice published in the newspaper have been stated to the best of the information of the Authorised Officer; however, the Authorised Officer shall not be responsible/liable for any error, misstatement or omission. 21. In the event, the e-auction scheduled hereinabove fails for any reason whatsoever, Phoenix has the right to sell the secured asset by any other methods under the provisions of Rule 8(5) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 and SARFAESI Act, 2002.

Place: Lucknow
Date: 05.02.2025

Sd/- Authorised Officer
Phoenix ARC Private Limited
(Trustee of Phoenix Trust-FY 22-21)

यूपी० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि०
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
कार्यालय महाप्रबन्धक, जोन-4, आगरा
मं०० ए-211, सैक्टर-13, आवास विकास कालोनी सिन्धुनगर, आगरा-282007
Mail ID: gm.upplagra@gmail.com

पत्रांक 443/पी.सी.एल./म/प्र० जोन-4/आगरा/ई-टेंडर दिनांक : 03.02.2025

अति अल्पकालीन ई-निविदा सूचना
इस कार्यालय द्वारा निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु अति अल्पकालीन ई-निविदा सूचना सं० 13/GM-4/UPPCL/2024-25 दिनांक 03.02.2025 आमंत्रित की जाती है। उक्त निविदाओं www.http://tender.up.nic.in की वेबसाइट पर दिनांक 07.02.2025 से दिनांक 18.02.2025 के अपराह्न 02:00 बजे तक डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है :-

- TOURISM DEVELOPMENT WORK OF DARIYANATH TEMPLE COMPLEX, IN DISTRICT AGRA. (U.P.)
- TOURISM DEVELOPMENT WORKS OF HANUMAN GARHI TEMPLE AT VILLAGE MANGA GARHI IN DISTRICT- HATHRAS. (U.P.)
- TOURISM DEVELOPMENT WORK OF HANUMAN TEMPLE VILLAGE RASEMAR IN DISTRICT- MAINPURI. (U.P.)
- CONSTRUCTION OF THEMATIC GATE AND TOURIST FACILITY CENTRE AT VILLAGE - SAHAN BLOCK KARHAL IN DISTRICT- MAINPURI. (U.P.)
- TOURISM DEVELOPMENT WORK OF TULSIDAS TEMPLE AT VILLAGE ADUPUR IN DISTRICT- MAINPURI. (U.P.)
- TOURISM DEVELOPMENT WORK OF THAKURDAS JI MAHARAJ TEMPLE AT UJHAIYA, FAKIRPUR IN DISTRICT- MAINPURI. (U.P.)
- TOURISM DEVELOPMENT WORK OF VANKHANDSHWAR MAHADEV NARKHI, IN DISTRICT- FIROZABAD (U.P.)

ई-निविदाओं से सम्बंधित अन्य विवरण, नियम एवं शर्तें कारपोरेशन की वेबसाइट www.upprojects.org पर दिनांक 07.02.2025 से देखी जा सकती है।

महाप्रबन्धक (जोन-4)
आगरा

GOVERNMENT OF ODISHA
Office of the Additional Chief Engineer
Upper Kolab Project, At/Po: Bariniput, Dist: Koraput, ODISHA-764006
email id: aceukp2022@gmail.com

e-Procurement Notice No. ACE-UKP-03/2024-25
Bid Identification No. ACE-UKP-03/2024-25(I) to ACE-UKP-03/2024-25(XII)

1	Nature of the work	Civil Works.
2	No. of Works	12 Nos.
3	Approximate Estimated Cost	Ranging from Rs.234.47 Lakhs to 252.87 Lakhs
4	Period of completion	Six calendar months each.
5	Type of Contract	Percentage Rate (Double cover).
6	Date & Time of Bidding / Availability of Bid documents in the portal	From 10.00 A.M. of 06.02.2025. Up to 05.00 P.M. of 23.02.2025.
6	Last date & time for receipt of bids in portal	23.02.2025 up to 5.00 P.M.
7	Time and date of opening of Technical Bid	11.00 A.M. of 24.02.2025.
8	Place of opening of Bid	O/The Additional Chief Engineer, Upper Kolab Project, Bariniput.

Further details can be seen from the website <https://tendersodisha.gov.in>. Addendum/corrigendum/Cancellation required, if any will be published in Govt. Website only.

Sd/-
Additional Chief Engineer,
Upper Kolab Project, Bariniput
OIPR-32197/11/0003/2425

GOVERNMENT OF ODISHA
DEPARTMENT OF WATER RESOURCES
OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER & BASIN MANAGER
TEL BASIN, BHAWANIPATNA
E-mail ID: ceetelbasinbhp@gmail.com / Phone No: 06670-230209

NOTICE INVITING TENDER
E-Procurement Notice No:- CE&BM, TEL - 02/2024-25
Bid Identification No: CETEL-KID-01/2024-25

The Chief Engineer & Basin Manager, Tel Basin, Bhawanipatna on behalf of Governor of Odisha invites on-line percentage rate tender (P-1) through e-procurement in double cover system for execution of work.

Table 1: Details of Critical Dates, Details of work, Bid Security

Pkg. No.	Name of works	Approx. Tender Cost	Class of Contractor	Bid Security/ EMD (Online /BG) (in INR)	Cost of tender document- (in INR)	Period of Completion
1	Protection to					

